

ARCHIDPLY INDUSTRIES LTD.

Corp. Office : 1st Floor, Plot No. - 2, Block No.1, W.H.S. Kirti Nagar - 110015 (India) Ph : 011- 45642555, 42665112, 45530828 | E-mail : corporate@archidply.com

30.01.2025

The General Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited
Floor 25th, P J Towers,
Dalal Street
Mumbai — 400 001

Scrip Code - 532994

The Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza,
Plot no. C/1, G Block,
Bandra – Kurla Complex
Bandra (E)
Mumbai – 400 051

NSE Stock Code - Archidply

Dear Sir,

Subject: Copy of Public Notice of un-audited Financial Results for the quarter ended December 31, 2024 advertised in Newspapers

Please find enclosed herewith a copy of public notice advertised in the newspapers with respect to the un-audited Financial Results for the quarter ended December 31, 2024.

We request to kindly take the same on record.

Thanking You!

Yours Faithfully

For Archidply Industries Limited

Atul Krishna Pandey Company Secretary & Compliance Officer

Encl: as above

(₹in Lakhs)

Nine Month Ended Year Ended

WESTLIFE FOODWORLD LIMITED Regd. Office: 1001, Tower - 3, 10th Floor, Indiabulls Finance Centre. westhfe

Senapati Bapat Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 013. CIN No.: L65990MH1982PLC028593 Tel: 022-4913 5000 Fax: 022-4913 5001 Website: www.westlife.co.in | E-mail id: shatadru@westlife.co.in

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2024

Particulars	3 months ended 31/12/2024	Preceding 3-months ended 30/09/2024	Correspond- ing 3 months ended 31/12/2023	Year to date figures for the period ended 31/12/2024	Yearto date figures for the period ended 31/12/2023	Year ended 31/03/2024
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income	65,665.58	62,447.12	60,495.72	190,257.01	184,281.04	241,027.55
Profit before tax	648.73	70.47	2,309.63	1,170.88	9,388.90	9,584.35
Profit after tax for the period /year	701.18	35.78	1,724.32	1,062.42	6,844.72	6,921.07
Total Comprehensive income / (loss) for the period / year	665.70	(17.47)	1,7:14:41	955.76	6,814.99	6,849.38
Earnings Per Share (not annualised) - (Face value of Rs 2 each)						
Basic (in Rs.)	0.45	0.02	1.10	0.68	4.37	4.44
Diluted (in Rs.)	0.45	0.02	1.10	0.68	4.37	4.44

- The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and nine months ended Dec 31, 2024 filed with the Stack Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the stock exchange websites www.bseindia.com, www.nseindia.com and Company's website : www.westlife.co.in. The same can be accessed by scanning the QR code provided below
- The Standalone financial results are available on the Company's website "www.westlife.co.in" at link https://www.westlife.co.in/ investors/financial-news-and-information/ and on the website of the stock exchange www.bseindia.com and www.nseindia.com. Key numbers of Standalone results of the Company are as under

Particulars	3 months ended 31/12/2024	3 months ended 30/09/2024	ing 3 months ended 31/12/2023	Year to date figures for the period ended 31/12/2024	figures for the period ended 31/12/2023	Year ended 31/03/2024
e notation of	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income	26.62	30.68	29.73	85,36	6,261.16	6,293.07
Profit /(Loss) before tax	(14.27)	(20.75)	(7.54)	(42.46)	6,135.02	6,066.52
Profit /(Loss) after tax for the period /year	(14.27)	(20.75)	(7.54)	(42.46)	5,972.30	5,912.13
Total Comprehensive income for the period /year	(14.27)	(20.75)	(7.54)	(42,46)	5,972,30	5,912,13

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on January 29, 2025.



For and on behalf of the Board (sd/-) Amit Jatia Chairman DIN: 00016871

(Rs. in Lakhs)

Chalet Hotels Limited

Mumbai

January 29, 2025

Registered Office: Raheja Tower, Plot No. C-30, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051

CIN: L55101MH1986PLC038538 Tel: 022 2656 4000 Fax: +91-22-26565451 Email: companysecretary@chalethotels.com / Website: www.chalethotels.com

STATEMENT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED **DECEMBER 31, 2024**

The Board of Directors of the Company at its meeting held on January 29, 2025 considered and approved the Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2024.

The Unaudited Financial Results along with the Limited Review Report of the Statutory Auditors have been placed on the website of the Company i.e. https://www.chalethotels.com/wordpress/wpcontent/uploads/2025/01/OutcomeBoardMeeting29012025.p df and may also be accessed by scanning the QR Code.



For Chalet Hotels Limited (CIN - L55101MH1986PLC038538)

Mumbai January 29, 2025

Sanjay Sethi Managing Director & CEO (DIN. 00641243)

This intimation is in accordance with Regulation 33 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.



3i Infotech Limited

(CIN: L67120MH1993PLC074411) Regd. office: Tower # 5, International Infotech Park Vashi-Station Complex, Navi Mumbai 400703, Maharashtra, India.

Email: investors@3i-infotech.com | Website; www,3i-infotech.com | Tel No.: 022-7123 8000 EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE

QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2024

Sr.	PARTICULARS	Quarter Ended 31-12-2024	Quarter Ended 31-12-2023	Year Ended 31-03-2024
No.	Sales of Confederation Confede	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Revenue from operations	18,141	21,218	81,388
2	Net Profit / (Loss) excluding Exceptional Income & including Discontinued Operations for the period (excluding additional charge of interest (notional) required under Ind AS 109 on fair valuation of preference shares and before Tax)	4,185	(1,625)	(4,733)
3	Net Profit / (Loss) for the period including Exceptional Income & Discontinued Operations (after considering additional charge of interest (notional) required under Ind AS 109 on fair valuation of preference shares and before Tax)	4,185	(1,848)	(28,396)
4	Net Profit / (Loss) for the period (including Exceptional Income & Discontinued Operations) after tax	4,060	(2,944)	(29,827)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax]	104	(2,988)	(34,948)
6	Paid up Equity Share Capital	16,955	16,877	16,923
7	Basic Earnings Per Share (of Rs 10/- each)	2.39	(1.74)	(17.69)
	Diluted Earnings Per Share (of Rs 10/-each)	2.39	(1.74)	(17.69)

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2024 (₹ in Lakhs)

Sr. No.	PARTICULARS	Quarter Ended 31-12-2024 (Unaudited)	Quarter Ended 31-12-2023 (Unaudited)	Year Ended 31-03-2024 (Audited)
1	Revenue from operations	8,575	9,164	35,733
2	Net Profit / (Loss) for the period including Exceptional Income & Discontinued Operations (after considering additional charge of interest (notional) required under Ind AS 109 on fair valuation of preference shares and before Tax)	1,364	(64,291)	(81,863)
3	Net Profit / (Loss) for the period (including Exceptional Income & Discontinued Operations) after tax	1,364	(64,291)	(81,863)

The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Financial Results for the guarter ended on December 31, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results is available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com / www.bseindia.com) and the Company's website (www.3i-intotech.com). The same can be accessed by scanning the QR Code provided herein:

Place : Navi Mumbai

Date : January 29, 2025



By order of the Board for 3i Infotech Limited

CA Uttam Prakash Agarwal Chairman & Independent Director

ABANS°

ABANS FINANCE PRIVATE LIMITED

CIN: U51219MH1995PTC231627
Registered Office: 36, 37, Floor-3, Plot-227, Nariman Bhavan, Vinayak Kumar Shah Marg, NCPA, Nariman Point, Mumbai 400021 **Tel:** 022 61790000 **Fax:** 022 61790010 **Email:** abansfinance@abans.co.in **Website:** www.abansfinance.com

Extract of Standalone Financial Results for the guarter ended **December 31, 2024** (₹ in Lakhs except EPS & Ratios)

Particulars	Qtr. Ended 31-12-2024	Qtr. Ended 31-12-2023	Year Ended 31-03-2024
Total Income from Operations	(Unaudited) 2,466.84	(Unaudited) 2,006.57	(Audited) 7,702.14
Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	311.45	570.24	1,907.66
Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	311.45	570.24	1,907.66
Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	235.51	419.43	1,435.14
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	235.51	419.43	1,393.08
Paid up Equity Share Capital	3,447.27	3,447.27	3,447.27
Reserves (excluding Revaluation Reserve)	30,364.33	27,732.32	28,281.34
Securities Premium	24,704.67	24,704.67	24,704.67
Net worth	33,811.60	31,179.59	31,728.61
Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	79,291.77	67,183.82	79,542.32
Outstanding Redeemable Preference Shares	-	<u> </u>	<u>.</u>
Debt Equity Ratio	2.35	2.15	2.51
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted:	0.68 0.68	1.22 1.22	4.16 4.16
Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA
Debenture Redemption Reserve	NA	NA	NA
Debt Service Coverage Ratio	_ NA	NA	NA
Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA

- The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter ended December 31, 2024, filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter ended December 31, 2024 Financial Results is available on the Company's website at www.abansfinance.com and on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com.
- For the other line items referred in Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made in the Financial Results submitted to the Stock Exchange (BSE Limited) and can be accessed on the URL at www.bseindia.com.

For and on behalf of the Board of Directors of **Abans Finance Private Limited**

ending

Mahesh Kumar Cheruveedu

Quarter ended

Director & CEO

Ended

Date: January 29, 2025 Place : Mumbai

GENLINK PHARMA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED (Formerly known as Genlink Pharma Investments Private Limited)

CIN: U74110MH2016PTC280765

Reg Off. : 401, 4th Floor, Kesar Solitaire, Piot No. 5, Sector 19, Sanpada, Navi Mumbai, 400705, Maharashtra, India. Ph: +91 22 6750 7000 Fax +91 22 6750 7070 Email: genlinkinfo@gmail.com Website: www.genlinkpharma.com Extract of Standalone Financial Results for the quarter ended 30th June, 2024

Particulars	30/06/2024	30/06/2023	31st March 2024
RAWOUL IN IN IN IN IN IN INC.	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from operations	68,18,003	11,84,356	47,07,819
Net Profit / (Loss) for the period (before tax and/or Exceptional and/or Extraordinary items)	42,26,042	58,892	-22,12,946
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	42,28,042	58,892	-22,12,946
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	32,26,042	-11,108	-22,90,342
Total Comprehensive income for the period (comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax).]	32,26,042	-11,108	-22,90,342
Paid Equity Share Capital	1,00,000	1,00,000	1,00,000
Reserves (excluding Revaluation Reserve)	58,99,586	49,52,778	26,73,544
Securities premium account		+	3.4
Net Worth	59,99,586	50,52,778	27,73,544
Paid up debt Capital/Outstanding Debt	20,00,000	2,42,51,047	2,16,76,531
Outstanding Redeemable Debentures	25,00,00,000	25,00,00,000	25,00,00,000
Debt Equity Ratio	42	54	98
Earnings Per Share (of 10'- each) (for continuing and discontinued operations)			
Basic ;	322.60	(1.11)	(229.03)
Diluterd:	322.60	(4:13):	(229.03)
Capital Redemption Reserve	377		
Debenture Redemption Reserve	or respo	www.ti	II market
Debt Service Coverage Ratio	0.02	0.00	(0.00)
Interest Service Coverage Ratio	8.59	1.64	(0.19)

- The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the LODR Regulations. The full format of the quarterly financial results is available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com) and the listed entity (https://genlinkpharma.com/investor-relations.html)
- The above results were approved by the Board of Directors at their meeting held on 28.01.2025. For the other line items referred in regulation 52 (4) of the LODA Regulations, pertinent disclosures have been made to the Bombay Stock Exchange and can be accessed on www.bseindia.com.and can be accessed on Company's website (https://geniinkpharma.com/investor
- As there has been no change in accounting policies, hence no impact on net profit loss, total comprehensive income or any other relevant financia. mon Shareholders Agreement dated January 18, 2022, specifically clause 12 and sub clause 12.4, and as per waiver letters dated
- January 22, 2022 and February 2, 2022 the NCD holder viz. Riverstreet and the Debenture Trustee viz. Vistra ITCL (India) Ltd., respectively. have warved their rights under the Debetture Trust Dead dated March 17, 2017 and as per legal opinion dt.10.10.2024 the management is of the opinion that no enforceable liability to pay premium of Rs.12,71,575/- per NCD upto 30 September 2024. Accordingly NCD shall now be redeemed at future date and the premium shall be computed based on the valuation of the underlying pledge shares. Since the value is not determinable today, hence are contingent in nature and not considered.
- In total income the Company has considered profit on sale of office premisese sold by the Company which was offerred to tax in previous year however the profit on sale of office premises and tax thereon has been considerd in current quarter Financials For Genlink Pharma Solutions Private Limited

Anand Shah Susheel Koul Managing Director Director

ARCHIDPLY MERCHANIST CHARTE

Date: 28.01.2025

ARCHIDPLY INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: Plot No. 7, Sector - 9, Integrated Industrial Estates, Sidoul, Pant Nagar, Udham Singh Nagar, Rudrapur, Uttarakhand 263153 Corporate Office: 1st floor, Plot No.2, Block No.1, W.H.S. Kirti Nagar, New Delhi - 110015 Ph.: 05944-250270, 011-45642555, Fax: 05944-250269, E-mail: cs@archidply.com, Website: www.archidply.com Extract Of Un-audited Standalone Financial Results For The Quarter And Nine Months Ended December 31, 2024 Amount in Lakhs (except EPS)

		STANDALONE						
	5		Quarter Ended Nine Months		Quarter Ended		Nine Months	
Sr. No.	Particulars	Un-Audited 31-Dec-24	Un-Audited 30-Sep-24	Un-Audited 31-Dec-23	Un-Audited 31-Dec-24	Un-Audited 31-Dec-23	Audited 31-Mar-24	
1	Total income from operations	11141.70	11498.25	10472.08	33594.77	31428.05	43575.11	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	109.29	226.08	211.10	663.38	915.65	1256.01	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	109.29	226.08	211.10	663.38	915.65	1256.01	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	89,25	161.03	146.44	501.67	666.44	729.53	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	106.46	179.73	138.77	553,30	665.61	791.40	
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re.1/- each)	1986,50	1986.50	1986.50	1986.50	1986.50	1986.50	
7	Earnings Per Share (Face value of Re.10/- each) - (for continuing and discontinued operations) (not annualised) (amount in Rs.)							
	Basic :	0.45	0.81	0.74	2.53			
	Diluted:	0.45	0.81	0.74	2.53	3.35	3.67	

				CONSOL	IDATED		
Sr.	Particulars	C	uarter Ende	ed	Nine N	lonths	Year
No.	raticulais	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Audited
		31-Dec-24	30-Sep-24	31-Dec-23	31-Dec-24	31-Dec-23	31-Mar-24
1	Total income from operations	15075.63	13016.69	10472.08	39410.35	31428.05	43567.16
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-208.65	-330.14	211.10	-847.47	915,65	1231.73
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-208.65	-330.14	211.10	-847.47	915,65	1231.73
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-175.45	-299.90	146.44	-725.81	666.44	709.84
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]		-281.19	138.77	-674.17	665.61	771,71
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re.1/- each)	1986.50	1986.50	1986,50	1986.50	1986.50	1986.50
7	Earnings Per Share (Face value of Re.10/- each) - (for continuing and discontinued operations) (not annualised) (amount in Rs.)						
	Basic:	-0.88	-1.51	0.74	-3.65		3.57
	Diluted:	-0.88	-1.51	0.74	-3.65	3.35	3.57

- The above Standalone & Consolidated un-audited financial results of Archidply Industries Limited ("the Company") have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the Company at their meeting held on January 29; 2025. Audit Report of these results as required under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, has been completed by the statutory auditors of the Company. The above unaudited financial results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting
- Standards (IND AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended. Previous year/period figures has been regrouped/reclassified, wherever necessary to conform to those current year
- The full format of the results is available on the websites of the stock exchanges (www.bseindia.com & www.nseindia.com) and on the company website (www.archidply.com)

financialexp.epapr.in

Place: New Delhi Date : January 29, 2025

Rajiv Daga **Managing Director** DIN: 01412917

Welspun investments & commercials limited

CIN - L52100GJ2008PLC055195

Regstd. Office: Welspun City, Village Versamedi, Taluka Anjar, Dist. Kutch, Gujarat 370110 Corporate Office: Welspun House, 7th Floor, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai – 400013. Website: www.welspuninvestments.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER **AND NINE MONTH ENDED 31 DECEMBER 2024**

Quarter Ended

٠			Quarter Ended			Wille Month Linded		
Sr. No.	Particulars	31/12/2024	30/09/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023	31/03/2024	
NO.		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1	Total Income from Operations (net)	19.29	489.75	14.00	520.06	402.21	412.68	
2	Net Profit/(Loss) for the period							
	(before Tax and Exceptional items)	8.17	482.67	6.58	494.36	379.40	371.59	
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax							
l	(after Exceptional items)	8.17	482.67	6.58	494.36	379.40	371.59	
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax							
	(after Exceptional items)	6.54	361.30	4.81	370.16	284.03	277.61	
5								
l	profit /(Loss) for the period (after tax) and Other							
١.	Comprehensive Income (after tax)]	5,001.07	16,101.00	10,971.35	29,059.67	29,461.54	26,633.56	
6	Equity share capital (Face Value ₹ 10 each)	365.45	365.45	365.45	365.45	365.45	365.45	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves as per							
 	balance sheet of previous accounting year)	-	-	-	-	-	- 1	
8	Earnings per share of ₹ 10 each							
	(for continuing operations)	0.40	0.00	0.40	40.40	7 77	7.00	
	Basic and diluted EPS (₹)	0.18	9.89	0.13	10.13	7.77	7.60	
Not	es:							

- 1) The above unaudited financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IndAS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended. These results have been subject to limited review by the statutory auditors of the Company in line with the Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure requirements) Regulations, 2015.
- 2) The above unaudited financial results have been reviewed by the Audit Committee in its meeting held on 29 January, 2025 and taken on record by the Board of Directors of the Company in the Board meeting held on that date.
- 3) The Company is engaged primarily in the business of investment activities and accordingly, there are no separate reportable segments as per IND AS 108 - Operating Segments. The Company operates in a single geographical segment i.e. domestic. The Company is a Core Investment Company (CIC) which is catagarised as non-deposit taking Core Investment Company and not
- required to register with Reserve Bank of India (RBI) as per the provisions of Master Direction Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016. Accordingly, the Company has prepared and presented its financial results as prescribed by Schedule III Division III of the Companies Act, 2013.
- Previous period's figures have been regrouped/reclassified, wherever necessary, to correspond with those of current period.
- 6) As on December 31, 2024, the Company does not have any subsidiary/associate/joint venture company(ies) and hence the preparation of Consolidated Financial statement is not applicable to the Company.
- The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited financial results is available on the websites of the Stock Exchanges (www.nseindia.com, www.bseindia.com) and the Company's websites

For Welspun Investments and Commercials Limited Gajendra Nahar

Place : Mumbai Date: 29 January 2025

(www.welspuninvestments.com)

Whole Time Director, CFO, CEO DIN: 02842999

CIN: L17299PB1995PLC055743

Registered Office: Second Floor, Navraav Electro Limited Building, Opp. Punj Honda, Jalandhar Road, Hoshiarpur, Hoshiarpur, Balachaur, Punjab, India, 146001 E-Mail: csosiajee.texfab@gmail.com | Website: www.osiajeehdl.com EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2024 (Rs in Lakhs)

Particulars	Quarter ended 31.12.2024 (Un-audited)	Quarter ended 30.09.2024 (Un-audited)	Quarter ended 31.12.2023 (Un-audited)	Nine Months ended 31.12.2024 (Un-audited)	Nine Months ended 31.12.2023 (Un-audited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)
Total income from operations (net)	- 14	0.15		0.15	7.10	7.10
Net Profit / (Loss) before tax	-3.37	-3.99	-1.23	-12.19	-0.73	-3.82
Net Profit / (Loss) for the period after tax	-3.37	-3.99	-1.23	-12.19	-0.73	-3.82
Total Comprehensive Income for the	-3.37	-3.99	-1.23	-12.19	-0.73	-3.82
Period and other Comprehensive Income after Tax	2000000	-ENGINEEN/	270745060	acceptance of	3=03119=0	3-101120
Equity Share Capital	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00
Reserves & Surplus	V/10/10201	\$0000000000000000000000000000000000000	343,30003	2000 AND 100	30/(A)(00)(1/2)	5200.000.00
Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each)	58.73 (180.50)		F2048-6082-6	5-5-317-007	5.000 at VIII	rom.r.
Basic / Diluted (₹):	-0.06	-0.08	-0.023	-0.022	-0.001	-0.07

Notes: 1.The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges under regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the un-audited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2024 are available on the website of BSE- www.bseindia.com and also available on Company's website i.e. www.osiajeehdl.com. 2. These un-audited Financial Results are in compliance with Indian Accounting Standards ("IND AS" as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. 3. The above-mentioned results were reviewed by Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors of the Company in their meeting held on January 28, 2025. These results have been subjected to limited review by the statutory auditors of the Company. 4. The Company operates in single segment. Hence no segment wise figures are published. 5. Previous year figures have been regrouped/ rearranged whenever necessary to confirm to current year figures in order to comply with the requirements of the amended Schedule III to the Companies Act, 2013 effective April 01, 2021. 6. The Consolidated Financial Results includes the results of a wholly owned subsidiary company "Osiajee Agro Farms Limited" which are as under:

7. Consolidated Financial Results : (Rs in Lakhs) Particulars Quarter Quarter Nine Months ended ended ended ended ended ended 31,12,2024 30.09.2024 31.12.2023 31.12.2024 31,12,2023 31,03,2024 Un-audited) (Audited) (Un-audited) Un-audited Jn-audited Jin-audited 244.77 Total income from operations (net) 105.57 118.19 43.0€ 224.89 176.01 Net Profit / (Loss) before tax 85.20 52.77 29.05 137.98 128.31 86.89 52.77 29.05 128.31 Net Profit / (Loss) for the period after tax 85.20 137.98 86.89 Total Comprehensive Income 85.20 52.77 29.05 137.98 86.89 128.31 Earnings per Share (Face Value of Rs. 10/-0.16 0.97 0.53 1.60 Basic / Diluted: 0.25

For Osiajee Texfab Limited

PLACE: HOSHIARPUR DATE: 29-01-2025

Reema Saroya Managing Director (DIN: 08292397)



Motilal Oswal Asset Management Company Limited Registered & Corporate Office: 10th Floor, Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani Road, Opposite Parel ST Depot, Prabhadevi, Mumbai - 400 025

• Toll Free No.: +91 8108622222, +91 22 40548002 • Email : amc@motilaloswal.com CIN No.: U67120MH2008PLC188186 • Website: www.motilaloswalmf.com

NOTICE

DECLARATION OF DISTRIBUTION OF INCOME & CAPITAL UNDER THE SCHEME. MOTILAL OSWAL BALANCED ADVANTAGE FUND

NOTICE is hereby given that Motilal Oswal Trustee Company Limited, Trustee to Motilal Oswal Mutual Fund has approved the declaration of Distribution of Income & Capital under the Quarterly Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) option(s) of the Scheme, Motilal Oswal Balanced Advantage Fund, an open ended dynamic asset allocation fund, as under:

Name of the Scheme/Plan(s)	Quantum of IDCW (₹ Per Unit)*	NAV as on January 28, 2025 (₹ Per Unit)	Record Date**	Face Value (₹ Per Unit)
Motilal Oswal Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Quartearly IDCW Option	0.19 12.6976		February 3,	10.00
Motilal Oswal Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Quarterly IDCW Option	0.18	11.9648	2025	10.00

* As reduced by the amount of applicable statutory levy, if any. ** Or immediately following Business Day, if that day is not a Business Day.

Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the IDCW Option of the above mentioned Plans of the Scheme will fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

The above IDCW is subject to the availability of distributable surplus and may be lower to the extent of distributable surplus available on the Record Date.

In case the distributable surplus is less than the quantum of IDCW on the record date/ex-IDCW date, the entire available distributable surplus in the scheme/plan will be declared as IDCW.

IDCW will be paid to those Unitholders/Beneficial Owners whose names appear in the Register of Unit holders maintained by the Mutual Fund/statement of beneficial ownership maintained by the Depositories, as applicable, under the IDCW Option of the aforesaid plans of the Scheme as on the record date.

Pursuant to Chapter 11 of SEBI Master circular no. SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/CIR/2024/90 dated June

27, 2024 on review of IDCW option(s)/Plan(s) in case of Mutual Fund Schemes shall be applicable for calculation of distributable surplus. In view of individual nature of tax consequences, each investor is advised to consult his/her own professional financial/tax advisor.

For Motilal Oswal Asset Management Company Limited

(Investment Manager for Motilal Oswal Mutual Fund)

Prateek Agrawal Managing Director & Chief Executive Officer

Date : January 29, 2025 MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

New Delhi

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Mumbai

जनसता

महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने की मांग बोर्ड परीक्षा में बुर्का

पहनने पर लगे प्रतिबंध

मुंबई, २९ जनवरी (भाषा)

महाराष्ट्र के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता नितेश राणे ने राज्य में अगले महीने होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने की बुधवार को मांग की और सुरक्षा तथा परीक्षा में गड़बड़ी होने के मुद्दे पर चिंता जाहिर की। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों में बुर्का पहनने पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की और कहा कि धार्मिक परिधान घरों तथा धार्मिक स्थानों तक ही सीमित होने चाहिए। राणे ने इस संबंध में महाराष्ट्र के स्कली शिक्षा मंत्री दादा भुसे को एक पत्र लिखा।

उन्होंने पत्र में कहा कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाली छात्राओं को बुर्का पहनने की अनुमित नहीं होनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो जांच के लिए महिला पुलिस अधिकारी या महिला कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। ये परीक्षाएं छात्रों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं और इन्हें पारदर्शी तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए, जिसमें कोई गड़बड़ी न हो।

भाजपा नेता ने कहा कि यदि परीक्षार्थियों को बुर्का पहनने की अनुमित दी गई तो यह पता लगाना कठिन हो जाएगा कि नकल करने के लिए इलेक्ट्रानिक उपकरणों या अन्य साधनों का प्रयोग किया जा रहा है या नहीं। किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में इससे सामाजिक और कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जिससे कई छात्रों पर इसका असर पड़ सकता है।



नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)

फोन : 0120 2412294, 2412445, फैक्स : 0120 2412218

ई-प्रोक्योरमेंट सूचना

संदर्भसं एनएफरल / सीओ / मार्केटिंग-श्री / डब्ल्युएसएफ / 2025-26 / 01 विनांक 30.01.2025 विभिन्न राज्यों (एमपी, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़) में आगे विपणन के लिए पानी में घुलनशी उर्वरकों के प्रोक्योरमेंट के लिए भावी निविदादाताओं से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं । विस्त एवं <u>www.nationalfertilizers.com</u> (Homepage) को देखें। ई-निविद सं 2025_NFL_225041_1 है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि/तकनीकी निविदा दस्तावेज खुलने की तिथि 10.02.2025 को 15.30 बजे /11.02.2025 को 15.30 बजे हैं। इस निविदा का कोई भी शुद्धिपत्र केवल हमारी वेबसाइटों पर प्रकाशित किया जाएगा।

डीजीएम (मार्केटिंग-डोमेस्टिक)

हैवेल्स इंडिया लिमिटेड

रिज. ऑफिस: 904, 9वीं मंजिल, सूर्या किरन बिल्डिंग, के.जी. मार्ग, कनींट प्लेस, नई विल्ली-110 001, कॉर्पोरेट ऑफिस: क्युआरजी टॉवर्स, 2डी, संक्टर-128, एक्सप्रेसचे, नोएडा-201 304 (उ.प्र.), फोन: +91-120-3331000, फॅक्स: +91-120-3332000, वेब: www.havels.com ई-मेल: investors@havells.com, CIN - L31900DL1963PLC016304

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी के निम्नलिखित शेयर प्रमाणपत्र के खो जाने / गुम होने की सूचना दी गई है और जिसे ढूंढ़ा नहीं जा सकता है। यदि इस नोटिस की तिथि से 15 दिनों के भीतर कंपनी द्वारा कोई दावा प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी इसके बदले में बुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगी:

फोलियो नंबर	पंजीकृत शेयरघारक का नाम	सर्टिफिकेट नंबर	विशिष्ट संख्या से – त्तक	शेयरों की संख्या (प्रत्येक 1 रुपये)
0012942	एव सुरेश चंद	220	1395001 से 1403000	8000
0010253	हंसा जोशी	175	1084001 से 1092000	8000
0023771	सतीश कुमार गुप्ता	413	3305181 से 3307180	2000

कृते हैवेल्स इंडिया लिमिटेड हरता / -कंपनी सचिव नोएडा, 29 जनवरी, 2025

ARCHIDPLY



आर्किडप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड सीआईएन: L85110UR1995PLC008627 रजि. कार्यालयः प्लॉट नंबर ७, सेक्टर –9, एकीकृत औद्योगिक संपदा, सिडकुल, पंत नगर, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, उत्तराखंड 263153 कॉर्पोरेट कार्यालयः प्रथम तल, प्लॉट नं.2, ब्लॉक नं.1,, डब्ल्यू,एच.एस. कीर्ति नगर, नई दिल्ली – 110015 फोनः 05944-250270, 011-45642555, फैक्सः 05944-250269, ई-मेलः cs@archidply.com, वेबसाइटः www.archidply.com

31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए

क्रं.		स्टैंडअलोन									
	विवरणों	1	समाप्त तिमाई	1	नौ म	वर्ष					
		अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीवित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित				
		31—दिसंबर—24	30-सितंबर-24	31—दिसंबर—23	31—दिसंबर—24	31—दिसंबर—23	31—मार्च—24				
1	परिचालनों से कुल आय	11141.70	11498.25	10472.08	33594.77	31428.05	43575,11				
2	अवधि के लिए शुद्ध लाम/ (हानि) (कर से पहले, विशेष और/या असाधारण मदें)	109.29	226,08	211.10	663.38	915.65	1256.01				
3	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (विशेष और / या असाधारण मदों के बाद)	109.29	226.08	211.10	663.38	915.65	1256.01				
4	कर के बाद की अवधि के लिए लाभ/ (हानि)(विशेष और/या असाधारण मदों के बाद)	89.25	161.03	146,44	501.67	666,44	729.53				
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर के बाद) के लिए संयुक्त लाभ / (हानि) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	106.46	179.73	138.77	553.30	685.61	791.40				
6	भुगतेय इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रू 1/– प्रत्येक)	1986.50	1986.50	1986.50	1986.50	1986.50	1986.50				
7	प्रति शेयर आय (रु. 10 / – प्रत्येक का अंकित मूल्य) (चालू और बंद परिचालन के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं)(धनराशि रु. में):	7,1 + 7,00				- 12-					
	मूल :	0.45	0.81	0.74	10000000						
	डाइलूटडः	0.45	0.81	0.74	2.53	3.35	3.67				

31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए असंपरीक्षित यमेक्टिन विनीम मिलामों का सम

		समेकित									
क्रं.	विवरणों		समाप्त तिमार्ह	ì	नौ म	वर्ष					
		अलेखापरीक्षित	अलेखापरीवित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीवित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित				
		31—दिसंबर—24	30-सितंबर-24	31—दिसंबर—23	31—दिसंबर—24	31—दिसंबर—23	31-मार्च-24				
1	परिचालनों से कुल आय	15075.63	13016.69	10472.08	39410.35	31428.05	43567.16				
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर से पहले, विशेष और/या असाधारण मदें)	-208.65	-330.14	211.10	-847.47	915.65	1231.73				
3	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशेष और/या असाधारण मदों के बाद)	-208.65	-330.14	211,10	-847,47	915.65	1231.73				
4	कर के बाद की अवधि के लिए लाम/ (हानि)(विशेष और/या असाधारण मदों के बाद)	-175.45	-299,90	146,44	-725.81	666.44	709.84				
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर के बाद) के लिए संयुक्त लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	-158.24	-281.19	138.77	-674.17	665.61	771,71				
6	भुगतेय इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रू 1/– प्रत्येक)	1986.50	1986.50	1986.50	1986,50	1986.50	1986,50				
7:	प्रति शेयर आय (रु. 10/ – प्रत्येक का अंकित मूल्य) (चालू और बंद परिचालन के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं) (धनराशि रु. में):										
	मूल :	-0.88	-1.51	0.74	-3.65	3.35	3.57				
	डाइलूटडः	-0.88	-1.51	0.74	-3.65	3.35	3.57				

आर्किङप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("कंपनी") के उपरोक्त स्टैंडअलोन और समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की ऑडिट

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 29 जनवरी, 2025

- कमेटी द्वारा समीक्षा की गई है और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 29 जनवरी, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में रिकॉर्ड पर लिया गया है। ऑडिट रिपोर्ट सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत आवश्यक इन परिणामों को कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा पूरा कर लिया गया है।
- कंपनी के उपरोक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में संशोधन सहित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक (आईएनडीएएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं। पिछले वर्ष / अवधि के आंकड़ों को उन वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए जहां आवश्यक हो, पुनर्समुहित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
- परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों (www.bseindia.com और www.nseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.archidply.com) पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

राजीव डागा प्रबंध निदेशक डीआईएन : 01412917

प्रयागराज की उड़ानों के ऊंचे किराए पर हरकत में सरकार, इंडिगो ने घटाया किराया

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 29 जनवरी।

महाकुंभ के लिए प्रयागराज की उड़ानों के अधिक किराए को लेकर बुधवार को नागर विमानन मंत्रालय ने एअरलाइंस से उचित किराया तय करने को कहा। इस

देश

निर्देश के बाद देश की सबसे बड़ी एअरलाइन 'इंडिगो' ने प्रयागराज के लिए अपनी उड़ानों के किराए में 30-50 फीसद तक की कटौती कर दी है। सुत्रों ने यह जानकारी दी। इसके पहले उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने प्रयागराज की उड़ानों का हवाई किराया 'बहत अधिक' होने की बात कही और विमानन

नियामक से इस दिशा में कदम उठाने की मांग की। प्रयागराज के संगम क्षेत्र में 13 जनवरी से शुरू हए महाकुंभ मेले का हिस्सा बनने के लिए देश-विदेश के लाखों लोगों के पहुंचने की वजह से हवाई सफर की मांग में बढ़ोतरी से किराए में भी जबरदस्त उछाल आया है। इसे देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने

एअरलाइंस से टिकट की कीमतों को तर्कसंगत बनाने के लिए कहा था। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायड ने बुधवार को सचिव वी वुलनाम, नागर विमानन महानिदेशालय के महानिदेशक फैज अहमद किदवई और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रयागराज की उड़ानों के संबंध में एअरलाइंस प्रतिनिधियों से मलाकात की।

INR in million, except per share data

MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

Registered Office: Plot No.1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi - 110070 CIN: L34103DL1981PLC011375; Website:www.marutisuzuki.com; E-mail: investor@maruti.co.in; Phone: + 91-11-46781000; Fax: +91-11-46150275/76

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2024

			Quarter ended		Nine mon	Year ended	
Sr. No	Particulars	December 31, 2024	September 30, 2024	December 31, 2023	December 31, 2024	December 31, 2023	March 31, 2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	384,921	372,028	333,087	1,112,263	1,026,977	1,409,326
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	46,019	51,005	40,538	143,915	120,426	170,404
3	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	35,250	30,692	31,300	102,441	93,316	132,094
4	Total Comprehensive Income /(Loss) for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income /(Loss) (after tax)]	33,972	32,830	30,388	106,743	96,708	134,782
5	Equity Share Capital	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572
6	Reserve as shown in the Audited Balance Sheet			355			838,248
7	Earnings Per Share (of INR 5 each) (for continuing and discontinued operations)						
	(a) Basic	112.12	97.62	101.90	325.83	307.18	431.08
	(b) Diluted	112.12	97.62	101.90	325.83	307.18	431.08

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2024

INR in million, except per share data

	Particulars		Quarter ended		Nine mon	Year ended	
Sr. No		December 31, 2024	September 30, 2024	December 31, 2023	December 31, 2024	December 31, 2023	March 31, 2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	387,643	374,492	335,128	1,119,929	1,033,870	1,418,582
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	47,260	51,406	41,556	147,023	123,169	174,245
3	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	37,269	31,025	32,068	105,891	95,359	134,882
4	Total Comprehensive Income /(Loss) for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income / (Loss) (after tax)]	35,983	33,171	31,139	110,184	98,714	137,551
5	Equity Share Capital	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572
6	Reserve as shown in the Audited Balance Sheet						854,788
7	Earnings Per Share (of INR 5 each) (for continuing and discontinued operations)						
	(a) Basic	118.54	98.68	102.00	336.80	303.30	429.01
	(b) Diluted	118.54	98.68	102.00	336.80	303.30	429.01

Note: The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the guarter and nine months ended December 31, 2024 are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on Company's website at www.marutisuzuki.com.

For and on behalf of Board of Directors

(Hisashi Takeuchi)

Managing Director & CEO

Place: New Delhi Date : January 29, 2025

R R KABEL LIMITED

(CIN: L28997MH1995PLC085294)

Regd. Off.: Ram Ratna House, Oasis Complex, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai – 400 013 T:+ 91-22-2494 9009 / 2492 4144. F: + 91-22-2491 2586. Email ID: investorrelations.rrkl@rrglobal.com

STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2024

(₹ in Lakhs except earning per share)

			STANDALONE							CONSO	LIDATED	OSSITERIO			
Sr.		Quarter Ended		Nine Mon	ths Ended	Year Ended	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended			
No.		31.12,2024	30.09.2024	31.12.2023	1.12.2023 31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024	31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024		
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)		
1,	Total Income from operations (net)	179559.12	181735.48	164576.37	543957.79	488379.55	665718.44	179559.12	181735.48	164576.37	543957.79	488379.55	665718.44		
2.	Net Profit (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	9002.17	5989,37	9588.71	23557.16	29949.44	40497.94	9045.81	5967.08	9591.98	23627.32	30035.67	40609.15		
3.	Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items)	9002.17	5989.37	9588.71	23557.16	29949.44	40497.94	9045.81	5967.08	9591.98	23627.32	30035.67	40609.15		
4.	Net Profit after tax (Share of Owners of the Company) (after Exceptional and / or Extraordinary items)	6813.73	4975.28	7092.57	18178.07	21854.28	29701.74	6857.37	4952.99	7095.84	18248.23	21940.51	29812.95		
5,	Total Comprehensive Income (Share of Owners of the Company)	4666.99	11468.44	7495.92	25414.88	25100.87	32029.09	4754.70	11422.29	7512,37	25364.85	25166.03	32120.11		
6.	Paid up Equity Share Capital (face value of ₹5/- per share)	5653.42	5652.83	5640.94	5653.42	5640.94	5640.94	5653.42	5652.83	5640.94	5653.42	5640.94	5640.94		
7.	Reserves excluding Revaluation Reserves as at Balance Sheet date						176791.97						177208.61		
8.	Earnings per share (not annualised for the Quarters)														
-	- Basic (in ₹)	6.03	4.41	6.35	16.09	19.56	26.52	6.07	4.39	6.35	16.16	19.64	26.62		
	- Diluted (in ₹)	6.03	4.40	6.33	16.09	19.51	26.48	6.07	4.38	6.34	16.15	19.59	26.57		

Place : Mumbai

- i) The above Standalone and Consolidated financial results of R.R. Kabel Limited ("the Company") have been prepared in accordance with and comply in all material aspects with the Indian Accounting Standards (Ind.AS) notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the act") read with relevant rules issued there under and in terms of Regulation 33 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulation), as amended. The full format of Standalone and Consolidated Financial Results are available on the stock exchange websites: www.bseindia.com, www.nseindia.com and also on the Company's website (URL: https://www.rrkabel.com/reports/). The full details can also be accessed by scanning the QR code provided below.
- ii) The above Standalone and Consolidated Financial results have been reviewed and recommended by Audit Committee at its meeting held on 28 January 2025. The Board of Directors at their meeting held on 28 January 2025. have approved the above results and taken them on record. The statutory auditors of the Company have expressed an unmodified review conclusion on the standalone financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2024.
- iii) During the quarter ended 31 December 2023, a search under section 132 of The Income Tax Act, 1961 was carried out at certain premises of the Company and residences of some of its directors and employees. The Company extended full cooperation to the Income-tax officials during the search and provided required details, clarifications, and documents. The Company has not received any communication from the Income Tax Department regarding the outcome of the search as on the date of issuance of these financial results, therefore, the consequent impact on these financial results, if any, is not ascertainable. However, after considering current position, management does not anticipate any material adverse impact on the financial position of the Company and accordingly no material adjustments are required to these financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2024 in
- iv) The Company has two reportable segment (presented for all periods) 1) Wires & Cables and 2) Fast-Moving Electrical Goods (FMEG) in accordance with Ind AS 108 "Operating segments".


v) The above Consolidated Financial Results includes the Financial Results of the Joint venture, RR Imperial Electricals Limited, Bangladesh.



For and on behalf of the Board of Directors of R R KABEL LIMITED

> Tribhuvanprasad Rameshwarlal Kabra **Executive Chairman** DIN: 00091375





पर ध्यान नहीं दिया। क्रेजरीवाल और

केजरीवाल सरकार ने ग्रेटर कैलाश को गटर कैलाश बना दिया

केजरीवाल स्कल खोलने के नाम पर

नई दिल्ली (उद संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र गली-गली में शरीब के ठेके खुलवाते हैं। विधायक सौरभ भारद्वाज ने ग्रेटर कैलाश ग्रेटर कैलाश में भाजपा प्रत्याशी शिखा राय के पक्ष में आयोजित जनसभा को

संबोधित कर दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहमत के साथ कमल खिलाने की की। अपील मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्शल नेतृत्व में आज देवभूमि उत्तराखंड े की तिमान स्थापित कर रही है



दो दिन पर्व ही हमारी सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लाग किया है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जिसका ठिकरा वो किसानों पर फोडते गया है जहां पर सभी वर्गों. संप्रदाय. पंथ के लोगों के लिए समान कानून लागू है। भी उन्हों ने सिर्फ झूठे वादे किए। मख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में ये सब काम इसलिए हो पा विल्ली में लोग दूषित पानी पीने को रहे हैं क्योंकि वहां पर डबल इंजन सरकार है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ायक सौरभ भारद्वाज जल निगम के

भी शराब के ठेके बना दिए गए। सर्दियों में दिल्ली गैस का चौंबर बन जाता है, हैं। यहां पानी और सीवरेज के मामले में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज मजबूर हैं। ग्रेटर कैलाश से आप विध

पहुंचते-पहुंचते माँ यमुना का पानी पीना तो दर सिंचाई के लायक तक नहीं बचता। पिछले 10 साल से केजरीवाल कह रहे हैं कि हम यमुना का अगले साल साफ कर देंगे, उन्हें जवाब देना चाहिए कि आखिर वो दिन कब आएगा जब यमना साफ हो जाएगी। मख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि दिल्लीवालों के लिए ये झाडु वाले आपदा से कम नहीं है। ये लोग लोगों की गाढ़ी कमाई पर झाडु लगाते हैं। दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचार और तष्टीकरण में आप के मौसरे भाइयों कांग्रेस से भी सचेत रहना है। ये उन लोगों के साथ खड़े रहते हैं जो अलगाववाद और आंतिकयों को बढावा देते हैं। ये लोग सीएए का विरोध करते हैं और राम को काल्पनिक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को सबक सिखाने के लिए परी तरह से तैयार है। इस मौके पर विधानसभा संयोजक सरेश भडाना एमए अकरम विनय गेहिला ओप गोयल गेहित अगेडा

सजाता दास, राकेश, संजय शर्मा वीके

ध्यानी समेत कई लोग उपस्थित रहे।



झूठ बोलकर सरकार चलाने वाले उपाध्यक्ष थे लेकिन, उन्होंने इस समस्या

इस शराब के कारोबार में वह इतने नीचे को गटर कैलाश बना दिया है। माँ यमना

गिर गए कि मंदिरों और स्कलों के पास - उत्तराखंड से स्वच्छ और निर्मल धारा के

साथ निकलती है लेकिन, दिल्ली मे

मख्य सचिव ने भारत नेपाल सीमा से संबंधित मुद्दों पर ली जानकारी

रूद्रपुर(उद संवाददाता)। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में भारत नेपाल सीमा से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने बॉर्डर से सटे जनपदों से नेपाल सीमा क्षेत्र में नो मैंस लैंड, वन भूमि तथा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने सीमा क्षेत्र में वाणिज्यिक स्थापना गतिविधियों पर भी जानकारी मुहैया कराने के निर्देश दिए। इस क्रम में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि नो मैन लैंड एरिया में 7 क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जो कि अस्थायी झोपड़ी हैं तथा यहां कृषि की गयी है, उन्होंने बताया कि यह अतिक्रमण आगामी 3-4 दिनों में हटा दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि 5 किमी. तथा 15 किमी. क्षेत्र में खटीमा नगर पालिका आ जाती है। उन्होंने बताया कि इस पूरे क्षेत्र का सर्वे कराया जाना शेष है। जिलाधिकारी श्री भदौरिया ने कहा कि बार्डर के आस पास कोई वाणिज्यिक स्थापना नहीं हुई है। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बागरी, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, ओ सी गौरव पांडेय आदि मौजूद थे।

दिनेशपर(उद संवाददाता)। पति पत्नी में कहासनी व बाद गस्साए पति ने अपनी पत्नी पर तेल छिड़क कर आग लग दी । जिसके बाद पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है जहाँ उसका उपचार चल रहा है। उधर मामले मे पीडिता की बहन ने जीजा के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवा की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है निकटवर्ती जयनगर संख्या चार निवासी गुंजन पुत्री बलवंत खेतवाल ने थाने में तहरीर देकर कहा कि उसकी बड़ी बहन भावना राणा जो पति उज्वल सिंह राणा और बच्चों के साथ गायत्री 🎤 विहार कालीनगर गांव में रहती है। आरोप है कि मंगलवार सुबह उज्वल सिंह अकारण अपने बच्चों के साथ मारपीट कर रहा था। जब पत्नी बीचबचाव को पहुंची तो पति ने उसकी पिटाई कर तेल डालकर आग लगा दी । चीखपुकार सुन आस पडोस के लोग मौके पर पहुंचे और आनन फानन में गंभीर हालत मे उसे निजी अस्पताल ले गए जहाँ उसका उपचार चल रहा है । उन्होंने आरोपित पति के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है



ने प्रशासन पर लगाया पक्षपात का आरोप आनल सिंह

से निष्कासित हुए अनिल सिंह ने कहा कि

गदरपुर(उद संवाददाता)। कार्यवाही न किए जाने से दलित समाज आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस में रोष है। अनिल सिंह ने अपने निवास पर पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा के निकाय चुनाव में हुए झगड़े में दोनों ही प्रत्याशी मिंटू गुंबर और उनके समर्थकों



पत्याशियों के समर्थक एक दसरे के साथ मारपीट कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि दलित समाज की महिला और बेटी के साथ मारपीट और उत्पीडन किया गया जिसकी शिकायत पलिस से की गई।

दारा उनकी पत्नी व उनके साथ जाति सुचक शब्दों से गाली गलौज की गई है जिसकी लिखित में शिकायत थाना अध्यक्ष से की गई है। थाना अध्यक्ष द्वारा शिकायत दे दी है जल्द ही इस पर उस शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई पलिस द्वारा उस शिकायत पर कोर्ड नहीं की गई है। उन्होंने जान माल का आंदोलन के लिए बाध्य हो गा।

खतरा बताते हुए प्रशासन से पुन: कार्यवाही की मांग की है। वहीं उनकी पुत्री कशिश सिंह ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी मिंटू गुंबर और उनके समर्थकों दारा उनके साथ भी अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। भाजपा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या यह स्लोगन सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गया है। आज जिस तरह से महिलाओं और बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है यह बहुत ही गलत है सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही करनी चाहिए। जाटव समाज के पर्व प्रदेश महासचिव भूप सिंह ने बताया कि चनाव के दौरान जो जाटव समाज के साथ अभद्रता हुई है इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन को लिखित में कार्यवाही नहीं हुई तो दलित समाज

ARCHIDPLY

ARCHIDPLY INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: Plot No. 7, Sector - 9, Integrated Industrial Estates, Sidcul, Pant Nagar, Udham Singh Nagar, Rudrapur, Uttarakhand 263153 Corporate Office: 1st floor, Ptot No.2, Block No.1, W.H.S. Kirti Nagar, New Delhi - 110015 Ph.: 05944-250270, 011-45642555, Fax: 05944-250269, E-mail: cs@archidply.com, Website: www.archidply.com

CIN: L85110UR1995PLC008627

Extract Of Un-audited Standalone Financial Results For The Quarter And Nine Months Ended December 31, 2024

Amount in Lakhs (except EPS)

		STANDALONE						
		(Quarter Ende	ed	Nine I	Nine Months Jn-Audited Un-Audited	Year	
Sr. No.	Particulars	Un-Audited	Un-Audited 30-Sep-24	OR THE OWNER OF THE OWNER	Un-Audited 31-Dec-24	Un-Audited 31-Dec-23	Audited 31-Mar-24	
1	Total income from operations	11141.70	11498.25	10472.08	33594.77	31428.05	43575.11	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	109.29	226.08	211.10	663.38	915.65	1256.01	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	109.29	226.08	211.10	663.38	915.65	1256.01	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	89.25	161.03	146.44	501,67	666.44	729.53	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	106.46	179.73	138.77	553.30	665.61	791.40	
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re.1/- each)	1986.50	1986.50	1986.50	1986.50	1986.50	1986.50	
7	Earnings Per Share (Face value of Re.10/- each) - (for continuing and discontinued operations) (not annualised) (amount in Rs.)							
	Basic:	0.45	0.81	0.74	2.53	3.35	3.67	
	Diluted:	0.45	0.81	0.74	2.53	3.35	3.67	

EXTRACT OF UN-AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024 Amount in Lakhs (except EPS)

		IDATED					
Sr.	Particulars		Quarter Ende	d	Nine N	Year	
No.		Un-Audited 31-Dec-24	Un-Audited 30-Sep-24	Un-Audited 31-Dec-23	Un-Audited 31-Dec-24	Un-Audited 31-Dec-23	
1	Total income from operations	15075.63	13016.69	10472.08	39410.35	31428.05	43567.16
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-208.65	-330.14	211.10	-847.47	915.65	1231.73
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-208.65	-330.14	211.10	-847,47	915.65	1231.73
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-175.45	-299.90	146.44	-725.81	666.44	709.84
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]		-281.19	138.77	-674.17	665.61	771.71
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re.1/- each)	1986.50	1986.50	1986.50	1986.50	1986.50	1986.50
7	Earnings Per Share (Face value of Rc.10/- cach) - (for continuing and discontinued operations) (not annualised) (amount in Rs.)						
	Basic:	-0.88	-1.51	0.74	-3.65	3.35	3.57
	Diluted:	-0.88	-1.51	0.74	-3.65	3.35	3.57

Notes:

- The above Standalone & Consolidated un-audited financial results of Archidpty Industries Limited ("the Company") have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the Company at their meeting held on January 29, 2025. Audit Report of these results as required under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, has been completed by the statutory auditors of the Company.
- The above unaudited financial results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.
- Previous year/period figures has been regrouped/reclassified, wherever necessary to conform to those current year
- The full format of the results is available on the websites of the stock exchanges (www.bseindia.com & www.nseindia.com) and on the company website (www.archidply.com)

For and on behalf of the Board of Directors Sd/

Rajiv Daga Managing Director DIN: 01412917



Place: New Delhi

